

Class- VIII (हिन्दी)

Sub : वसंत

पाठ- 8 यह सबसे कठिन समय नहीं

दिनांक- 30/09/2021

कवयित्री : जया जादवानी

व्याख्या (केवल पढ़ने के लिए)

1. नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं !  
अभी भी दबा है चिड़िया की  
चोंच में तिनका  
और वह उड़ने की तैयारी में है ।

शब्दार्थ: कठिन = मुश्किल । तिनका = सूखी घास ।

व्याख्या : प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री कहना चाहती हैं कि हे मानव, अभी व्यतीत हो रहा समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है । उसे अभी सहारा और सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने को पूर्ण रूप से तैयार है । इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती हैं ।

2. अभी भी झरती हुई पत्ती  
थामने को बैठा है हाथ एक  
अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है  
गंतव्य तक  
जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा  
अभी भी कहता है कोई किसी को  
जल्दी आ जाओ कि अब  
सूरज डूबने का वक़्त हो गया ।

शब्दार्थ : झरती= झड़ना, गिरना । थामना = पकड़ना । गंतव्य = मंजिल ।

प्रतीक्षा= इंतजार । वक़्त = समय ।

व्याख्या- कवयित्री लोगों को प्रेरणा देते हुए कहती हैं कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को पकड़ने के लिए एक हाथ तैयार है अर्थात् असहाय एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए अभी भी कुछ दयावान लोग अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं । स्टेशन पर भीड़ अभी भी बनी हुई है । यहाँ तक कि एक रेलगाड़ी इस समय भी अपने निश्चित स्थान पर जाने के लिए तैयार है । दूर कहीं मंजिल पर कोई इसमें बैठे लोगों की राह देख रहा होगा। आज भी लोग एक दूसरे को कहते हैं कि सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है; अतः जल्दी आ जाओ ।

3. अभी कहा जाता है  
उस कथा का आखिरी हिस्सा  
जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से



क) नदी की  
ख) वन की

ग) पहाड़ की  
घ) इनमें से कोई नहीं

## निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छात्र अपनी उत्तरपुस्तिका में लिखेंगे ।

1 आपके विचार में 'कठिन समय' किसका द्योतक (प्रतीक) है ?

उत्तर - मेरे विचार से 'कठिन समय' दुख का द्योतक है । यह दुख मानव को हिलाकर रख देता है। उसकी आस्थाएँ डगमगाने लगती हैं, उसका विश्वास टूटने लगता है । तब वह हर पल को कठिन मान लेता है और कमजोर पड़ जाता है । वह अपनी ताकत को न तो पहचान पाता है और न ही उसके लिए प्रयत्न कर पाता है । वह 'कठिन समय' को अपने जीवन का दुख मानकर भोगने को उचित मानता है ।

2 'सूरज डूबने का वक़्त हो गया' पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर- उक्त पंक्ति हमारे वापस आने का संदेश देती है । यह हमें बताती है कि घर के बाहर रहने का समय समाप्त हुआ, अब हमें घर लौट जाना चाहिए । यह समय घूमने-फिरने का नहीं अपितु घर-परिवार में आराम से बैठने का है। अतः समय रहते घर वापस आ जाओ ।

3 'यह सबसे कठिन समय नहीं' कविता का मूल उद्देश्य क्या है ?

उत्तर- कविता का मूल उद्देश्य है- 'जीवन में किसी भी समय को कठिन न समझें'।

व्यक्ति

अगर प्रयत्न करे तो उसे प्रत्येक दुविधा से बाहर निकालने का अवसर मिल जाता है। कोई-न-कोई सज्जन किसी-न-किसी दुविधाग्रस्त व्यक्ति की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है । कठिन समय मानकर व्यक्ति को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उसे विश्वास रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद प्रकाश अवश्य होता है । अतः किसी भी समय को सबसे कठिन समय नहीं समझना चाहिए। कठिनता मानव-हृदय की

सबसे बड़ी कमजोरी है।

=====00=====

टीप : यह पाठ्य-सामग्री घर में ही रहकर तैयार की गई है ।